

राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

आगामी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा नाबार्ड के सभी कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता से संबंधित नियम एवं शर्तें तथा आवेदन एवं घोषणा पत्र नीचे प्रस्तुत हैं।

अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता की शर्तें एवं नियम

- हिंदी निबंध प्रतियोगिता का विषय : प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवोन्मेषी पहलें
अथवा
नाबार्ड में परफॉर्मेंस मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के उपाय
- पात्र प्रतिभागी : नाबार्ड के सभी कार्यालयों(प्र.का.,क्षे.का.,प्रशि.का.,उ.का.) के हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता प्राप्त स्टाफ सदस्य ।
- प्रतियोगिता के दो वर्ग :
वर्ग I - हिंदी में प्रवीणता प्राप्त
वर्ग II - हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त
(एम्पावर में आपके द्वारा किये गए घोषणा के आधार पर)
- शब्द सीमा : 1000 शब्द (वर्ग I के लिए)
500 शब्द (वर्ग II के लिए)
- पुरस्कार की राशि : प्रथम पुरस्कार – रु.5000/-
द्वितीय पुरस्कार - रु.3000/-
तृतीय पुरस्कार - रु.2000/-
- प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख : 31 अगस्त 2019
- परिणाम घोषणा की संभावित तिथि : 14 सितंबर 2019 (हिंदी दिवस)
- प्रविष्टि भेजने का माध्यम : nilima.moharana@nabard.org को अपनी प्रविष्टि पीडीएफ़ में अपने व्यक्तिगत नाबार्ड मेल आईडी से ही भेजें।
- प्रविष्टि को अपने व्यक्तिगत नाबार्ड ई-मेल से संलग्नक के रूप में भेजें तथा ई-मेल के मुख्य पृष्ठ पर आपना विवरण एवं घोषणा पत्र(नीचे प्रस्तुत आवेदन एवं घोषणा पत्र के अनुरूप) लिखें।

निबंध की रचना स्थूल रूप से निम्नानुसार हो सकती है :

- भाग 1 प्रस्तावना और लेखक की दृष्टि से चुनौतियाँ/मुद्दे।
- भाग 2 निबंध लेखक द्वारा प्रस्तावित उपाय और उसके समर्थन में आंकड़ों का विश्लेषण आदि।
- भाग 3 सुझाए गए उपायों को अमल में लाने के लिए क्या कार्रवाई आवश्यक है और ऐसी कार्रवाई के लिए क्या नीतिगत परिवर्तन करने चाहिए।

मूल्यांकन के मानदण्ड :

- विचारों की मौलिकता : 40 प्रतिशत महत्व
- विचारों के कार्यान्वित होने की साध्यता/व्यवहार्यता : 40 प्रतिशत महत्व
- प्रस्तुतीकरण में स्पष्टता एवं भाषा : 20 प्रतिशत महत्व

- निबंध मौलिक होना चाहिए और वह पहले कहीं प्रकाशित न हुआ हो।
- अन्य स्रोतों से लिए गए संदर्भों और सामग्री का उचित ढंग से उल्लेख किया गया हो।
- शब्द सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
- निबंध एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लिख सकते हैं। संयुक्त प्रविष्टि होने पर पुरस्कार की राशि लेखकों में बांटी जाएगी।
- कम्प्युटर पर टंकित निबंध केवल यूनिकोड के फॉन्ट में(पीडीएफ़ रूप में) होने चाहिए।
- हस्तलिखित निबंध साफ सुथरे एवं स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए।

- निबंध के किसी भी पन्ने पर आपका नाम आदि कुछ भी लिखा होना नहीं चाहिए।
- पुरस्कार संबंधी निर्णय लेने का पूरा अधिकार मूल्यांकन समिति का होगा।

नोट : (i) प्रत्येक वर्ग में प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर तथा विषयवस्तु के स्तर को देखते हुये पुरस्कारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार मूल्यांकन समिति के पास सुरक्षित है।

(ii) विजेताओं को नकद पुरस्कार के अलावा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त निबंधों और अन्य अच्छे निबंधों को नाबार्ड की गृह पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का अधिकार एनबीएससी अपने पास सुरक्षित रखता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : डॉ. नीलिमा महारणा, प्रबंधक-राजभाषा

मोबाइल नं. 9101731038 ई-मेल : nilima.moharana@nabard.org

निबंध प्रतियोगिता
आवेदन एवं घोषणा पत्र

1. पूरा नाम :
2. पदनाम :
3. यू आई एन :
4. मोबाइल नं. :
5. ई-मेल आईडी :
6. हिंदी ज्ञान :

(एम्पावर में किए गए घोषणा के आधार पर
प्रवीणता प्राप्त अथवा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त)

7. कार्यालय का नाम :
8. घोषणा :

उक्त प्रतियोगिता के लिए मैं/हम संलग्न निबंध प्रस्तुत कर रही/रहा/रहे हूँ/हैं। मैंने/हमने प्रतियोगिता के सारे नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें समझ लिया है। मैं/हम घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम प्रतियोगिता हेतु सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि संलग्न निबंध में प्रस्तुत/व्यक्त विचार/मत मेरे/हमारे स्वयं के हैं और यह निबंध इसके पूर्व किसी अन्य पत्रिका/जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ है।

स्थान :

दिनांक :